



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 218) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

28 जनवरी 2014

सं0 22 नि0 सि0(यॉ0)-04-01/2014/140—श्री लाल मोहन झा, सहायक अभियन्ता (यॉ0) (आई0डी0—एम0413) सिंचाई यांत्रिक अवर प्रमण्डल, बौसी (बॉका) बिना सूचना के दिनांक 01.12.12 से लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहे तथा इस संदर्भ में दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के उपरान्त भी उनके द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया। विभागीय अधिसूचना सं0-5073 दिनांक 18.9.13 द्वारा श्री झा की सेवा लघु जल संसाधन विभाग को सौंपी गई, परन्तु लघु जल संसाधन विभाग में भी श्री झा द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया, जो श्री झा के कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का परिचायक है।

उक्त अनियमितता के लिए श्री झा को प्रथम द्रष्टया दोषी मानते हुए सरकार द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री लाल मोहन झा, सहायक अभियन्ता (यॉ0) सिंचाई यांत्रिक अवर प्रमण्डल, बौसी (बॉका) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री झा, सहायक अभियन्ता का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री झा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जा रहा है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नागेश्वर प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 218-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>